

## Dehradun दून में छाप रहे थे नकली नोट, तीन गिरफ्तार

उत्तराखंड न्यूज़ डेस्क, कोतवाली पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में चल रहे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार स्वर्गीय पुत्र गुमानीवाला गली नंबर 2 निवासी चंद्र मोहन पांडेय है। दिवाकर दत्त पांडेय ने पुलिस को शिकायत दी। इसमें उन्होंने बताया कि श्यामपुर बाईपास गुमानीवाला में उनकी किराना की दुकान है। पिछले 28 अगस्त की शाम एक व्यक्ति अपनी दुकान से सामान लेने आया था। सामान खरीदने के बाद उसने उन्हें दो हजार रुपये का एक नोट थमा दिया। यह नकली निकला। पुलिस ने दुकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और मुखबिरों की मदद से संदिग्ध की पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक आरोपी को जंगल चौकी गुमानीवाला से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसकी पहचान नीरज निवासी मोहल्ला माता गढ़, थाना मंडी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस हिरासत में उसने बताया कि वे तीन दोस्त हैं।

इनमें सुनील और रोशन जोशी वसुंधरा विहार, निरंजनपुर, पटेलनगर, दून में रहते हैं। वहां रोशन जोशी के पास एक कमरे में नकली नोट छापने के लिए सैकर, लैपटॉप और प्रिंटर मशीन है। वे नकली नोट छापकर अलग-अलग इलाकों में सामान खरीदते हैं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी रोशन जोशी निवासी ग्राम सूना पोस्ट व थाना थराली जिला चमोली हॉल निवासी गली नंबर 2 वसुंधरा विहार पटेल नगर देहरादून व सुनील निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2000 रुपये के चार नकली नोट, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और अन्य सामान भी बरामद किया है। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है।

देहरादून न्यूज़ डेस्क !!!

Source: <https://samacharnama.com/city/dehradun/Fake-notes-were-being-printed-in-Dehradun-three-arrested/cid8422806.htm>